

अधिकतम 34.8 डिग्री  
न्यूनतम 17.7 डिग्रीहरिभूमि  
जीटी रोड मूवि

रोहतक, रविवार, 7 अप्रैल 2024

12 खेलकूद में छात्रों ने दिखाया दम बलजिंद्र व रुचि बने बेस्ट एथलीट



12 मोदी की स्थिति बेहद मजबूत, 400 पार करेगा...



## खबर संक्षेप

## देसी कट्टा सहित दो आरोपी गिरफ्तार

अंबाला। थाना मुलाना के ओवर ब्रिज के पास से अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में सीआईए-शहजादपुर ने आरोपी गगनदीप सिंह व आशीष उर्फ आशु को देसी कट्टा व जिंदा रौंद सहित गिरफ्तार किया गया है।

## चोरी के मामले में तीन आरोपी काबू

अंबाला। थाना सेक्टर-9 में दर्ज चोरी की नीयत से घर में घुसने के मामले में पुलिस ने आरोपी फिरोज कुमार, साहिल व राज कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी राजेश कुमार से पूछताछ के दौरान बताया कि फिरोज कुमार, साहिल व राजकुमार भी इस मामले में संलिप्त हैं। सेक्टर नौ के दीपक शिकायत दर्ज करवाई थी।

## युवक ने यमुना नहर में कूदकर की खुदकुशी

यमुनानगर। शहर के पुराना हमीदा निवासी 35 वर्षीय हेमंत उर्फ काका ने शनिवार दोपहर पुराना सहारनपुर रोड स्थित पश्चिमी यमुना नहर पुल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया।

## चोरी की बाइक बेचने आए दो युवक गिरफ्तार

यमुनानगर। शहर की फरकपुर थाना पुलिस ने जोड़िया गुरुद्वार के नजदीक से चोरी की बाइक बेचने आए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया।

## चलती स्कूटी में लगी आग, चालक बचा

पानीपत। सड़क पर चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। जिससे स्कूटी पूरी तरह से जल गई गनीमत यह रही कि चालक बाल-बाल बच गया। जाटल रोड स्थित आरके पुरम निवासी सुरेश कुमार अपनी टीवीएस ज्यूपीटर स्कूटी न.एचआर 26 डीके 7406 पर सवार होकर ड्यूटी जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक स्कूटी में आग लग गई।

## दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया

## आरोपी भी नाबालिग, कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेजा

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ पानीपत

पानीपत की एक कॉलोनी में निवास कर रहे यूपी के प्रवासी परिवार की 16 वर्षीय लड़की ने शनिवार को एक बच्ची को जन्म दिया। वहीं, हुडा सेक्टर 29 थाना पुलिस के अनुसार 16 वर्ष की लड़की राजकीय स्कूल में पढ़ती है। वहीं खेतीक बस्ती निवासी 16 वर्ष का ही एक लड़का, लड़की का सहपाठी है। पुलिस को भी शिकायत में लड़की के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और लड़की उसकी इकलौती संतान है। लड़की के साथ उसके सहपाठी ने गत वर्ष सितंबर माह में दुष्कर्म किया था। वहीं आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

■ मां बेटी सिविल अस्पताल में भर्ती, दोनों की हालत स्थिर

■ आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

■ आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

■ आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

■ आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

■ आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

■ आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

■ आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

■ आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

■ आरोपी लड़का, लड़की को उसके पिता की हत्या करने की धमकी देकर

उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं लड़की गर्भवती हो गई। लड़की ने गर्भवती होने के बात अपने पिता से छुपाई। शनिवार के दोपहर को लड़की घर पर अकेली थी पिता अपने काम पर फैंकट्टी में गए हुए थे। प्रसव पीड़ा होने पर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, जब तक पिता घर पहुंचा तब तक लड़की बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जबकि पिता ने आस पड़ोसियों के सहयोग से अपनी पुत्री व नवजात को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां दोनों का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। इधर पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी किशोर पर केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को बाल सुधारगृह, अंबाला भेज दिया है।

## हिन्दू-सिख एकता का प्रतीक चैत्र चौदस मेले का मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ

अभिषेक पूर्णिमा ▶▶ पिहोवा

उपमंडल पिहोवा में शनिवार से तीन दिवसीय चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ हो चुका है। चैत्र चौदस मेला हिन्दू-सिख एकता का प्रतीक है, जिसमें देश भर से लोग अमावस के अवसर पर स्नान करते हैं तथा अपने पितरों की आत्मा का शांति के लिए पिंडदान व पूजा-पाठ करवाते हैं। एसीडीएम अमन कुमार ने कहा कि विश्व विख्यात चैत्र चौदस मेले का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है।

## पृथुदक तीर्थ का सर्वाधिक महत्व

कुरुक्षेत्र की परिधि में पड़ने वाले तीर्थों में सर्वाधिक महत्व पृथुदक तीर्थ को माना गया है। वामन पुराण के अनुसार वेन के पुत्र पृथु के नाम

## देश भर से श्रद्धालु अमावस के अवसर पर स्नान करने पहुंचेंगे



पिहोवा। पूजा करते श्रद्धालु व मेले में पहुंचे श्रद्धालु।

से इस तीर्थ का नाम पृथुदक हुआ। राजा वेन धर्म से विमुख हो गया था, जिस कारण ऋषियों ने उसे श्राप देकर मार दिया था। फिर उसके शरीर का मंथन किया गया, जिससे भगवान विष्णु के नौवें अंश पृथु पैदा हुए। राजा पृथु ने जिस स्थान पर अपने पितरों को उदक यानि जल दिया, वह स्थान पृथु-उदक यानि पृथुदक नाम से प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस तीर्थ में स्नान का अति महत्व माना गया है। यहां स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति को



फोटो: हरिभूमि

अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति के साथ-साथ स्वर्गलोक भी प्राप्त हो जाता है।  
देश के कोने-कोने से श्रद्धालु मेले में आते हैं तथा परंपरागत तरीके से अमावस के समय स्नान करते हैं। चैत्र चौदस मेले के साथ लोगों की

## किसानों ने ड्रोन उड़ाने का प्रदर्शन कर सिंचाई का तरीका बताया



हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ करनाल

किसान कृषि कार्यों में ड्रोन का सहजता से इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रोपवाइड ग्रोअर्स एप सहित अन्य प्रौद्योगिकियों को भी तेजी से अपना रहे हैं। इसी के चलते गांव रिसिन में किसानों ने ड्रोन उड़ाने का प्रदर्शन किया। इस दौरान बताया गया कि ड्रोन विधि से किस तरह सिंचाई की जा सकती है और उसके बचा फायदे हैं। किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण देने वाली सिजेंटा के कंट्री हेड और एमडी सुशील कुमार ने शनिवार को रिसिन गांव में सिजेंटा के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में किसानों के एक समूह के साथ मुलाकात की और जिस सहजता और

तेजी से किसान कृषि कार्यों में ड्रोन और अन्य प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सराहना की। सिजेंटा किसानों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके लिए हम किसानों को सुरक्षित छिड़काव के लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। सिजेंटा का अनुसंधान एवं विकास केंद्र करनाल में 25 साल पुराना है जो भिंडी, तरबूज, टमाटर और खीरे जैसे बीजों को तैयार करता है। उन्होंने कहा, हमारे सीएसआर कार्यक्रम के तहत, सिजेंटा फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से, हमने एक ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत हमने हरियाणा के 16 जिलों से 18 महिलाओं सहित 100 ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित किया है।

■ सिजेंटा किसानों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

## विदेश में रोजगार के सपने हुए खाक जर्मनी के लिए निकले युवक की मौत

## परिजनों का आरोप एजेंट बताता रहा की रास्ते में है युवक, परिवार के पास पहुंच चुकी थी मौत की खबर

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ बराड़ा

विदेश में काम की तलाश में गए युवक की मौत हो गई। इस खबर से परिवार ही नहीं पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतक अपने पीछे पत्नी व दो छोटी बच्चियों को छोड़ गया है। शनिवार दोपहर को मृतक का शव गांव में पहुंचा।

के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस को दी शिकायत में मृतक के भाई संजीव ने कहा कि उसका छोटा भाई अनिल कुमार प्राइवेट काम करता था। उसकी शादी लगभग 6 साल पहले हुई थी। उसके पास दो लड़कियां हैं। वह



बराड़ा। मृतक अनिल का फाइल फोटो व अंतिम संस्कार के समय उपस्थित ग्रामीण।

विदेश में जाकर काम करना चाहता था। उन्हें कहीं से पता चला कि गांव सारण का विमल सैनी लोगों को बाहर भेजने का काम करता है। तो उन्होंने विमल सैनी से संपर्क किया और अपने छोटे भाई अनिल को बाहर भेजने की बात की। सैनी इनके बाद हमारे घर आया और बोला कि मैं आपके भाई को जर्मन भेज दूंगा जिसके लिए साढ़े तेरह लाख में बत तय हुई। उसने कहा कि शुरू में अनिल का पासपोर्ट व पचास हजार

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

■ आरोपी कैंटर ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पति पत्नी घायल

## चैत्र चौदस पर सरस्वती तीर्थ पर स्नान करने का विशेष महत्व

उद्घाटन अवसर पर नया चेयरमैन आशीष चक्रपाणि ने कहा कि पुराणों के अनुसार पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने सभी संबंधियों का यहीं पर पिंड दान करवाया था। भगवान श्री कृष्ण और शिव ने भी यहां सरस्वती तीर्थ में स्नान किया। श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी भी यहां पधारें थे। महाराजा रणजीत सिंह इसी पावन तीर्थ पर अपनी माता का पिंडदान करवाने आए थे। इस पावन तीर्थ पर पूरा वर्ष श्रद्धालु पिंडदान व स्नान करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन चैत्र चौदस को यहां स्नान करने का विशेष महत्व है। चैत्र चौदस मेले में श्रद्धालुओं का लगभग 80 प्रतिशत वर्ग सिख समुदाय से आता है। इसलिए इस मेले को हिन्दू-सिख एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है।

## सीसीटीवी कैमरे लगाए गए

उन्होंने कहा कि मुख्य घाट पर बने प्रशासनिक खंड में अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी कैमरों द्वारा रखी जा रही नजर का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, बड़ी एलईडी स्क्रीन से हर सेक्टर पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि चैत्र चौदस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से लोग उपमंडल पिहोवा में आसंगे। चैत्र चौदस मेले के अवसर पर सूचना प्रसारण केंद्र की स्थापना की गई है, जो समय-समय पर घोषणाओं के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाते हैं।

बावनाएं जुड़ी हुई हैं। श्रद्धालुओं के किसी प्रकार की परेशानी का लिए मेला प्रशासन द्वारा सभी सामाना न करना पड़े, इसके लिए प्रकाश व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। इयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। मेले में आने वाले लोगों को

## मानव तस्करी करने का आरोप

## परिजनों का आरोप एजेंट बताता रहा की रास्ते में है युवक, परिवार के पास पहुंच चुकी थी मौत की खबर

शिकायतों को विमल सैनी पर कुछ शक हुआ। उन्होंने विमल सैनी के बारे में अपने तौर पर पता किया तो पता चला कि एजेंट विदेश में बच्चों को नजाराज तरीके से भेजकर मानव तस्करी करने का काम करता है। विदेश में बच्चों से नजाराज काम करवाता है। इसके बाद 23 मार्च 2024 को अनिल के साले ने अनिल की फोटो व वीडियो भेजी जिससे पता चला कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। उन्होंने एजेंट से बात की। शिकायतकर्ता की माने तो अब तक आरोपी उनसे साढ़े आठ लाख रुपये उनसे हड़प चुका था। बराड़ा के एसएचओ गुलशन कुमार ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर आरोपी एजेंट के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अभी फिलहाल विदेश में है। आरोपी के पासपोर्ट व उसकी ट्रेवल हिस्ट्री संबंधी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी।

29 अक्टूबर 2023 को अनिल सैनी फ्लाइट दिल्ली से होने के बाद 1-2 दिन के बाद विमल सैनी रकम के लिए हमारे घर पर आया और हमने उसे पांच लाख रुपये नकद दे दिए।

खबर संक्षेप

स्वस्थ जीवन ही सफल जीवन का आधार : अनेजा

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विवि के स्वास्थ्य केन्द्र के एडमिनिसट्रेटर, गैपियो सदस्य, आरएसएसडीआई मेम्बर एवं मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष अनेजा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बदलते हुए मौसम के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन ही सफल जीवन का आधार है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ शारीरिक रूप से ही फिट रहना जरूरी नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है।

अमेरिकन यूनिवर्सिटी की संगोष्ठी में पढ़ा शोध पत्र

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर सीआर जिलोवा ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी में ह्यूसामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में कानून, भारत के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन पत्र प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में उन्होंने शोध पत्र के माध्यम से कानून द्वारा समाज में हुए विभिन्न बदलावों की ओर ध्यान दिलाया जिसमें मुस्लिम महिला के अधिकार, मुफ्त शिक्षा मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, जनहित याचिका आदि।

भाजपा स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के निकटवर्ती गांव कैथला खुर्द में भारतीय जनता पार्टी दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया जिसमें गांव के सरपंच मास्टर बलदेव सिंह सैनी ने ग्रामवासियों को भाजपा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के नए-नए आयाम स्थापित कर रही है।

नुकड़ नाटक से मतदाताओं को किया जागरूक

कुरुक्षेत्र। जिला प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार मतदाताओं को जागरूक करने हेतु भगवान परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों ने कुरुक्षेत्र के केसल मॉल में नुकड़ नृत्य गायन के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने हेतु उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी पंचवीस मई को वोट करने के लिए जागरूक करना था।

मॉक ड्रिल कर आग से बचने के उपाय बताए

कुरुक्षेत्र। अग्निशमन विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारना में अस्पताल में किसी स्थान पर आग लगने पर आग बुझाने वाले संस्था के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को फायरमैन, मास्टर ट्रेनर मॉक ड्रिल गुरुप्रीत तथा फायर ऑपरटर राजेश द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई तथा प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्होंने अग्निशमन की गाड़ी द्वारा भी अस्पताल परिसर में कैसे आग को बुझाया जाए संपूर्ण जानकारी दी। इस संदर्भ में डॉ अंजू वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारना ने बताया कि जिस प्रकार फसल की कटाई का समय है जिसमें कहीं भी आग लगने की संभावना हो सकती है।

शिविर में योग के प्रति किया जागरूक

हरिभूमि न्यूज करनाल मेरा मिशन स्वस्थ भारत के अंतर्गत मिशन प्रमुख योग शिक्षक दिनेश गुलाटी ने योग का प्रचार करते हुए अमृतसर, पंजाब में योग का परचम लहराया। जेसीआई एलुमनी क्लब के परंपरा कार्यक्रम के अधीन अमृतसर में एकत्र हुए जेसीआई एलुमनी क्लब के देश भर के सदस्य के लिए योग शिविर का इंतजाम किया गया। जिसमें जिनो 10 के योग दिनेश गुलाटी जो कि संस्था के सदस्य भी हैं उन्होंने बताया कि अपने पंजाब प्रवास के दौरान होटल

भाजपाइयों ने पार्टी के स्थापना पर दिवस सरकार की उपलब्धियां बताईं  
भाजपा सरकार में देश लगातार उन्नति के पथ पर हो रहा अग्रसर: विनय संघू

बोले : भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जिसमें हर छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं को मिलता है पूरा सम्मान



करनाल। पार्टी का झंडा लगाते व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनय संघू गगसीना। फोटो: हरिभूमि

हरिभूमि न्यूज करनाल भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता ने बुधों पर जाकर भाजपा सरकार की द्वारा चलाई गई योजनाओं व उपलब्धियां गिनवाईं। वहीं करनाल में भी कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा किसान मोर्चा के कर्ण मंडल अध्यक्ष सचिन की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा किसान

मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनय संघू गगसीना ने मुख्यतिथि के रूप में शिरकत की। सचिन और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने विनय संघू का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान वीरेंद्र कुमार को मंडल में महामंत्री, पंकज मुजाल को महामंत्री, विजय कुमार को उपाध्यक्ष व पवन कुमार को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। विनय संघू व सचिन ने सभी पदाधिकारियों का फूल मालाएं पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान मंडल क्षेत्र

पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया  
घरौंड। भारतीय जनता पार्टी के बरसत मण्डल के कालरो शक्ति केंद्र पर पार्टी स्थापना दिवस मनाया गया जिसकी अध्यक्षता सन्दीप लोहट ने की। कार्यक्रम में ब्लॉक समिति सदस्य प्रतिनिधि अशोक राणा, वीरेंद्र राणा, पूर्व पंच मेमपाल, ठाकुर मामनंद, सुरेश प्रजापत विशेष रूप से उपस्थित रहे। शक्ति केंद्र प्रमुख संदीप लोहट ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। इसलिए भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में की गई और 6 अप्रैल 1980 को एक नये संरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

में पार्टी के झंडे भी लगाए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनय संघू ने कहा कि ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा की टीम पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है।

पार्टी ने मौका दिया तो पूरे दमखम से लड़ेंगे चुनाव: इंद्रजीत

इन्द्रजीत गौराया ने करनाल लोकसभा से टिकट के लिए किया था आवेदन

हरिभूमि न्यूज करनाल

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह गौराया ने कहा कि मैंने करनाल लोकसभा से पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया था इस बारे पार्टी हाईकमान से मिलकर चर्चा भी हुई है अगर पार्टी ने टिकट दिया तो पूरे दमखम से चुनाव लड़ूंगा। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाक़ात करने उपरांत करनाल पहुंचने पर गौराया ने कहा कि मुझे व मेरे साथियों को पूर्ण विश्वास है कि करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता हमें सहयोग व समर्थन रूपी आशीर्वाद दे तो इस सीट को बड़े



अंतर से जिताने का काम करेंगे इन्द्रजीत गौराया ने कहा कि मेरे अलावा बहुत से संभावना हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस इच्छा प्रकट की है जिस पर पार्टी हाईकमान विभिन्न पहलुओं से गम्भीरता से विचार कर रहा है बहुत जल्द इस पर फैसला आने की संभावना है उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर भारी उत्साह है क्योंकि इस बार लोग बदलाव के वोट देने जा रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ होगा तथा करनाल का सांसद पार्टी का होगा।

जाट महासभा की कारगुजारियों को किया जाएगा बेनकाब

हरिभूमि न्यूज करनाल

जाट महासभा करनाल इन दिनों मौजूदा और पूर्व प्रबंधन की घोर अनियमितताओं का शिकार हो रही है। संस्था के पदाधिकारियों की मनमानी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने संस्था के संस्थापक सदस्यों व पदाधिकारियों की सदस्यता के साथ-साथ मताधिकार खत्म कर दिया। इन्होंने सभी मुद्दों को लेकर संस्थापक, पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों के बीच इन मनमानियों को उजागर किया जाएगा। वहीं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में पाल सिंह संघू द्वारा दायर



याचिका पर विचार करते हुए महासभा में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। यह जानकारी जाट महासभा करनाल के संस्थापक महासचिव शमशेर सिंह

12 करनाल में स्थापित किया। उन्होंने इस भवन की शुरूआत एक झोपड़ी से शुरू की थी और बाद में इसको आलिशान और विशाल स्वरूप प्रदान किया। जाट भवन देश के बड़े सुन्दर भवन में शामिल है। 2005 में इन्होंने दूसरी कार्यकारिणी को कार्यभार सौंप दिया था। उसके बाद 2012-13 में बाकि बचे वृद्ध और योग केंद्र का निर्माण किया। 2014 में इन्होंने इसकी बागडोर बिरादरी के सहयोग से जोगिन्द्र लाटर को सौंप दी। उस समय उन्होंने सभा भवन के मुख्य गेट पर अपना नाम लिखवाना और कमरे के किराये में मनमानी करने का विरोध किया।

1994 से लेकर 2005 के अंत तक 21 संस्थापक सदस्यों और 7-8 अन्य विशिष्टजनों की मदद से 12 साल तक कठिन परिश्रम कर जाट बिरादरी के गौरव का प्रतीक जाट भवन संकट-

वल्लभ ओरिएंटेशन कोर्स का उद्घाटन का 8 को

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित वल्लभ का सामूहिक ओरिएंटेशन कोर्स कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 8 अप्रैल को होगा। इसका उद्घाटन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सक्सेना करेंगे। इस ओरिएंटेशन कोर्स में यूटीडी, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज, आईटीटीआर एवं यूआईआईटी के कुल 24 वल्लभों के प्रमारी एवं इनके सचिव भाग लेंगे। इस आशय की जानकारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक डॉ. महासिंह पुनिया ने शनिवार को केंद्र सीनेट हॉल में एक द्विदिवसीय नाटक कार्यशाला के छात्रों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि वल्लभों के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक से अधिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

श्री घण्टाकर्ण महावीर देवस्थान में श्रीमद्भागवत कथा सुनने मात्र से होते दुख दूर

हरिभूमि न्यूज करनाल

इन्ट्री रोड स्थित मनोकामनापूरक संकटमोचक श्री घण्टाकर्ण महावीर देवस्थान पर प्रत्येक महीने के कृपा दिवस कृष्ण चौदस पर हर बार की भाँति मासिक श्रद्धालु संगम आज विशेष भक्तिमय आयोजन रविवार को भारत संत गौरव सर्व धर्म दिवाकर श्री पीपूष मुनि जी महाराज एवं शान्तमूर्ति महासाध्वी श्री प्रमिला जी महाराज की पावन नैश्राय में उत्साह एवं भक्तिपूर्वक आयोजित किया जा रहा है। श्री घंटाकर्ण जी




जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासनशक देव एवं तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र की साधना को सफल करने वाले अलौकिक

शक्ति सम्पन्न देव हैं। देवस्थान दर्शनाथ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। प्रातःकालीन आरती सुबह 9 बजे होगी तथा सांयकालीन सांय 6 बजे होगी। कार्यक्रम के उपरांत महाआरती होगी। इस महाआरती एवं सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रीतिभोज का लाभ श्री सुभाष चंद्र जैन सुपुत्र स्व. प्रधान लाला हरिचंद्र जैन ( पैट्रोल पंप वाले ) गांधी मण्डी, पानीपत निवासी द्वारा लिया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में बृहत श्री घण्टाकर्ण स्तोत्र सुनाया जाएगा।

हरिभूमि न्यूज करनाल

आचार्य मणि प्रसाद गौतम ने कहा कि जब हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। मानव जीवन प्राप्त करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन जीव के दिल में इच्छा होती है कि वह ईश्वर के बारे में जाने वह इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ईश्वर के बारे में जान पाता है। आचार्य मणि प्रसाद गौतम शनिवार को मानसरोवर में सोमपाल शर्मा व निर्मल शर्मा की ओर से



आयोजित श्री मद भागवत कथा प्रवचन कर रहे थे। कथा में आयोजकों ने कथावाचक आचार्य मणि प्रसाद गौतम को पाण्डू से सम्मानित भी किया

वेदव्यास जी ने खुद भागवत कथा में लिखा है कि अगर सातों दिन तक पूरी निष्ठा और ध्यान से आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं वह मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करती है। उन्होंने कहा कि जिस धरती पर पानी की कमी हो जाती है, वहां की फसल खराब हो जाती है। इसी प्रकार जहां धर्म व संस्कार न हो और अपनी परंपराओं का निर्वाह न हो, वहां नस्ल खराब हो जाती है। भागवान ने जो हमें यह सांस दी है, वह किसी का बुरा करने के लिए नहीं। अपनी जिंदगी को यूँ ही व्यर्थ करने के लिए नहीं बल्कि यह सांस भगवान का नाम जाप करने और भगवान की भक्ति के लिए दी है।

नवरात्र में ऑस्ट्रेलिया में माता की भक्ति की अलख जलाएंगे पिता-पुत्र

ईश्वर अपने पुत्र के साथ ऑस्ट्रेलिया को भरेंगे उड़ान

हरिभूमि न्यूज करनाल चेरयमैन नन्दन चावला वाइस चेरयमैन कुलभूषण नारंग विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि योगिक क्रियाएं, आसन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, इन सब के नित्य प्रति अभ्यास करने से निरोग जीवन व्यतीत किया जा सकता है। जेसी पंकज और जेसी राजेश पराशर जेसी नंदिनी पराशर ने ब्रताया कि दिनेश गुलाटी के साथ योग करने के पश्चात उन्होंने स्वयं को बहुत ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस कर रहे हैं और वह भविष्य में भी योग को अपनाएंगे और मेरा मिशन स्वस्थ भारत के साथ जुड़े रहेंगे।

हरियाणा ही नहीं देश के जाने-माने लोक गायक, माता के जागरण में लोगों को आल्हादित करने वाले लोक गायक ईश्वर शर्मा अपने पुत्र हेमंत शर्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया में नवरात्र के दौरान हरियाणा की आवाज बनेंगे। वह वहां की एक कंपनी के आमंत्रण पर 9 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। जहां पर

ऑस्ट्रेलिया के शहरों में आयोजित माता के जागरण में हरियाणवीं परंपरा और संस्कृति के दूत बनेंगे।



41 सालों से लोक गीत गा रहे लोकगीत  
उन्होंने कहा कि वह लगभग 41 सालों से लोक गीत गा रहे हैं। वह चौबीस सालों से माता की भक्ति और अन्य भक्ति गीत खुद लिख रहे हैं और गा रहे हैं। देश के अलग-अलग भागों में अपनी प्रतिभा के दम पर लोहा गन्दावे वाले ईश्वर शर्मा ने अपने पुत्र हेमंत शर्मा को भी तैयार किया है। हेमंत शर्मा 9 जून 2006 से अपने पिता के साथ गा रहे हैं। ईश्वर शर्मा ने बताया कि वह विलेजर्स म्यूजिक कंपनी के आमंत्रण पर जा रहे हैं। वहां पर वह 12 की पथ में तथा 14 की मेलवर्न में माता का जागरण करेंगे। इसके बाद उनके और भी कार्यक्रम हैं। उनको पथ में सन्नी डवरा, निशांत खैती, मैलवर्न में अमित चौधरी, के.सी सिद्धुपुरिया द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किए हैं।

अब्दुल कलाम, श्री रामनाथ कोविंद, श्रीमती द्रौपदी मर्मु, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई सहित कई देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुति दे चुके जाने-माने गायक ईश्वर शर्मा अब आस्ट्रेलिया की उड़ान भरेंगे। वह पहले नवरात्रि अर्थात् गुडी पड़वा के दिन जाएंगे। वह आज अपने निवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

वहां माता का जागरण करेंगे। वह पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रणव मुखर्जी ए.पी.जे

**खबर संक्षेप**

**उद्योगपति करें मतदान के लिए श्रमिकों की छुट्टी**  
पानीपत। लोकसभा आम चुनाव में जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विरेंद्र कुमार दहिया ने स्वीप के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी आरडब्ल्यूए प्रधान, मार्केट कमिटी प्रधान, डाइज एसोसिएशन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सभी मजदूरों को मतदान वाले दिन मतदान हेतु प्रेरित करने का आह्वान करते हुए 25 मई को वोट डालने हेतु श्रमिकों को छुट्टी प्रदान करने के लिए कहा। वहीं उन्होंने श्रमिकों को छुट्टी का उपयोग देश के पर्व में मतदान हेतु ही करें कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम न बनाया जाए।

**कांग्रेस नेता बुल्ले शाह के पीए का मोबाइल गुम**  
पानीपत। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वरिष्ठ बुल्ले शाह के नीजि सचिव फ्रेंडस कॉलोनी वासी मुलखराज गुरेजा पुत्र भगत राम का फोन 25 मार्च को मोबाइल गुम न.7206900019 शहर में जीटी रोड स्थित पुराने बस अड्डे के पास कहीं गुम हो गया। जिसकी शिकायत मुलखराज गुरेजा ने थाना शहर पुलिस को दे दी है। वहीं पुलिस ने मोबाइल की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

**कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं**

**विधायक ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं के घर पर किया ध्वजारोहण**

हरिभूमि न्यूज ►► पानीपत

भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर पानीपत शहरी से भाजपा विधायक प्रमोद कुमार विज ने अपने जीटी रोड स्थित कार्यालय में विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का ध्वज फहरा कर कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं एवं लड्डू खिला कर मुंह मीठा कराया। वहीं पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रमोद विज ने शहरी कार्यकर्ताओं के घर जाकर ध्वजारोहण किया। विधायक ने बूथ नंबर 4, 170, 171, 172, 173 व 174 में तथा अन्य बूथों पर जा कर भाजपा कार्यकर्ताओं के घर ध्वजारोहण कर उन्हें शुभकामनाएं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हरीश कटारिया, राजेश भारद्वाज, वीरेंद्र तनेजा, दिवाकर मेहता, प्राण रत्नाकर, सुनील सोनी, पूर्व पार्षद अशोक कटारिया, रविंद्र भाटिया, योगेश डावर, शकुन्तला गर्ग, अंजलि शर्मा, अधिनी दीगार, रविंद्र आदि मौजूद रहे।



पानीपत। अपने कार्यालय पर भाजपा का झंडा फहराते विधायक प्रमोद विज।



पानीपत। अपने निवास पर पार्टी का झंडा फहराते सांसद कृष्ण लाल पंवार।

**भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी पर गर्व : जगबीर आर्य**

पानीपत। भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रमारी जगबीर आर्य ने पार्टी का स्थापना दिवस गांव कुराड़ में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के साथ मनाया। सर्वप्रथम जगबीर आर्य ने अपने हरद्वार हाईवे स्थित होटल जय फूड में पार्टी का झंडा फहराया तथा होटल के कर्मचारियों का मुंह मिठा कराया। जिसके बाद साथ लगते गांव कुराड़ पहुंचे तथा यहां पर मोर्चा के सजली मंडल अध्यक्ष पालेख, प्रमारी रणजीत शर्मा, मोहित, वकील जोगी, डा.रोहताक देशवाल व शोषपाल जोगी के घर जाकर भी पार्टी का झंडा फहराया व सभी को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी। ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगबीर आर्य ने कहा कि पीएम मोदी के जन कल्याण के कार्यों व विदेशों तक में बिखर जा रहे भारत देश को मान-सम्मान को देखते हुए मौजूदा समय में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है।

**भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता संकल्प लें इस बार मोदी सरकार 400 पार : कृष्ण पंवार**

राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने शनिवार को मल्लोड़ा स्थित अपने आवास पर भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी का ध्वज फहराया और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समर्पित समस्त कर्मठ व परिश्रमी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को इस दिवस पर प्रण लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुआई में भारत देश को आगे बढ़ाने में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। आज भाजपा पार्टी के उन सभी महान विभूतियों को याद करने का दिन है। जिन्होंने अपनी समर्पण और त्याग से पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने सुरक्षा, सुशासन व विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 400 के लक्ष्य के अनुरूप कठिन परिश्रम कर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प करें और अपने अपने बूथ पर प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएं।



पानीपत। सलाद प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थी प्रमाण पत्रों के साथ। फोटो: हरिभूमि

**नमी के कारण नहीं हो पाई गेहूं खरीदारी**

समालखा। शनिवार को समालखा कि नई अनाज मंडी में तीन दुकानों पर गेहूं की फसल पहुंची। लेकिन गेहूं में सीलन होने की वजह से खरीदारी नहीं हो पाई। हालांकि सरकार द्वारा गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। इस बार मौसम में ठंडक होने की वजह से खेतों में गेहूं की फसल अच्छी तरह नहीं सुख पाई है। जिसकी वजह से गेहूं की कटाई में देरी हो रही है और अनाज मंडी में नहीं आ पा रहा था। जबकि पिछले तीन-चार दिन से धूप तेज होने की वजह से फसलों में पकाई शुरू हो गई है और शनिवार को मंडी में कुछ किसान गेहूं लेकर आए लेकिन जब गेहूं में नमी की मात्रा मापी गई तो किसानों को गेहूं नहीं खरीदा गया। वहीं मार्केट कमिटी की सचिव सविता रानी ने बताया कि सरकार की तरफ से अनाज की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई है और शनिवार को जो अनाज मंडी में आया है उसमें नमी की मात्रा है इसलिए अनाज को नहीं खरीदा गया।



पानीपत। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए डा.हितेश चंद शर्मा। फोटो: हरिभूमि

**मतदान प्रतिशत बढ़ाने के डा.हितेश शर्मा के कार्य की एडीसी ने की तारीफ**

हरिभूमि न्यूज ►► पानीपत  
आगामी 25 मई लोकसभा आम चुनाव में जिले का मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डा.पंकज के नेतृत्व में विशेष मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पब्लिक गैदरिंग सम्पन्न स्थलों जैसे ऑटो रिक्शा, रोडवेज बसें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टोकन सेंटर, सीएससी अटल सेवा केंद्र, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक, मजदूर आदि को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से आकर्षक स्टीकर, स्लोगन, मतदान तिथि युक्त आकर्षक वस्तुएं प्रदान कर मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान के सदस्य जिला निर्वाचन कार्यालय से डा.हितेश चंद शर्मा बुजुर्गों, महिलाओं, मजदूरों एवं युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। वहीं एडीसी ने बेहतर जागरूकता कार्य के लिए डा.हितेश की तारीफ भी की।

**श्रीराम लला के दर्शन कर लौटे शिव मंदिर समिति के पदाधिकारी व संगत**

हरिभूमि न्यूज ►► पानीपत

प्राचीन शिव मन्दिर सन्यास आश्रम के प्रधान सुभाष गुलाटी की अनुआई में लगभग 105 लोग श्री राम लला के दर्शन करके आज पानीपत वापस लौटे हैं। यह दल 2 अप्रैल को अयोध्या के लिए निकला था। सुभाष गुलाटी ने बताया कि डेढ़ माह पहले सभी की अयोध्या के लिए टिकटें बुक करवा दी थीं। सभी लोगों को लिए पानीपत से दिल्ली के लिए दो बसों में और फिर दिल्ली से अयोध्या एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा पहुंचाया गया। अयोध्या में सभी के लिए श्यामा सदन धर्मशाला में ठहरने व खाने पीने का प्रबन्ध किया गया। सभी श्रद्धालुओं ने हनुमान गढ़ी, राम लला, दशरथ महल और कनक भवन में जाकर दर्शन किए। इसके अलावा सरयू नदी में स्नान किया तथा नौका विहार का भी आनन्द



पानीपत। अयोध्या में दर्शनीय स्थलों का दौरा करते सुभाष गुलाटी व उनकी टीम।

लिया। प्रधान सुभाष गुलाटी ने कहा कि लोगों में इतना उत्साह है कि जो अभी तक अयोध्या नहीं गए उनके अभी से ही फोन आने शुरू हो गए हैं कि अगला आने का कार्यक्रम कब है। उन्होंने कहा कि पहला अनुभव जानकारी के अभाव में थोड़ा खट्टा मीठा रहा। आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से दर्शन कराने और लोगों को भी लेकर जाएंगे। इस अवसर पर देवकी, पम्मी, कमल नयन वर्मा, हरीश वर्मा, हीरा लाल, नवीन, जय भगवान ग्रोवर, मा.अरुण नन्दवानी, ओम प्रकाश नन्दवानी, सुधीर, टोपन दास, हरि चन्द सहगल, मीरा, दय्या वर्मा, सीमा, ईशा चुच, शशी धमीजा, फूला देवी, हरि किशन पपनेजा, वंद प्रकाश चोपड़ा, ललिता, हंस रानी, तारा रानी, सोनाली मल्होत्रा, कमल धमीजा, सुरेन्द्र चावला, किरण चावला, प्रमोद हलवाई आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

**सलाद डेकोरेशन स्पर्धा आयोजित**

हरिभूमि न्यूज ►► पानीपत  
तहसील कैम्प के कृष्ण नगर स्थित विक्टर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सलाद डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से सलाद की सजावट की। छठी कक्षा के परिणाम में फलक प्रथम, दूसरे स्थान पर बेकुंट पाल व तीसरे स्थान पर अनन्या रही। सातवीं कक्षा में प्रथम अप्रिती, दूसरे पर सान्वी व तीसरे पर शिवम रहे। आठवीं कक्षा में प्रथम पर अल्फा खातून, दूसरे पर जानवी व तीसरे स्थान पर वंश रहे। प्रतियोगिता के अंत में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। स्कूल प्रबंधक विक्रम गांधी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में आम निर्भर का गुण आता है। इस अवसर पर प्रियंका बठला, बलकार सिंह, विधि व सोनिया मौजूद रहे।

**भाजपा के स्थापना दिवस पर इंजी.रविंद्र रावल ने लहराया पार्टी का झंडा**

समालखा। पार्टी स्थापना दिवस पर बूथ नंबर 72 के प्रमुख इंजी.रविंद्र रावल भलौर ने अपने निवास पर भाजपा का झंडा लगाया। और भाजपा को करनाल लोकसभा चुनाव में भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत भाजपा की हरियाणा में तीसरी बार सरकार लानी है इसके लिए सभी बूथ प्रमुखों को पूरी मेहनत करनी होगी। इस मौके पर मार्केट कमिटी के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जलमाना, शक्ति केंद्र प्रमुख जितेंद्र रावल, किसान मोर्चा बापौली मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, सोनू रावल पष्नीना, ओमप्रकाश, राहुल रावल, कुलदीप नंबरदार, छोट राम, ईशमपाल रावल, अमित कुमार आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

**विदेशों में करेंगे जाट समाज के साथ संवाद डॉ. नवीन**

हरिभूमि न्यूज ►► पानीपत  
अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा डॉ.नवीन नैन भालसी ने बताया कि कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, रोजगार सृजन व गौरवशाली जाट इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर विदेश की धरती पर कौम को जोड़ने के लिए विदेश की धरती पर अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के विस्तार व कौम के गौरवशाली इतिहास पर सात समुंद्र पार समाज के जागरूक व प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे। इस दौरान डॉ.नवीन नैन भालसी ने बताया कि 6 अप्रैल को दुबई में, 7 अप्रैल को इस्तांबुल तुर्की में 8 व 9 को जर्मनी के बर्लिन में 10 व 11 को फ्रांस के पेरिस में, 12 को ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, 13 को जर्मट स्विट्जरलैंड में 14 को जुंगफ्राजोच

**पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च**

हरिभूमि न्यूज ►► समालखा  
कदि्यान, समालखा थाना से सब इम्पेक्टर महेंद्र बापौली थाना से एसएचओ अतर सिंह, थाना सनौली से एसएचओ संदीप कुमार, तहसीलदार समालखा, समालखा चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुमार, सीआरपीएफ टीम से इम्पेक्टर अंजू सहित अन्य पुलिस अधिकारी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। वहीं समालखा डीएसपी नरेंद्र कदि्यान ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देशभर में 16 मार्च से आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में आचार संहिता की पालना और हल्के में लोकसभा चुनाव नष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके कराने को लेकर समालखा प्रशासन ने भी कमर कस ली है। देशभर में आचार संहिता लागू हो जाने के बाद समालखा पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में लोकसभा चुनाव की तैयारी और रुकावट डालने वाले बदमाशों के प्रति कड़ी कार्रवाई का संदेश देना है।

**पार्टी का स्थापना दिवस हर कार्यकर्ता के लिए उत्सव**

हरिभूमि न्यूज ►► बापौली  
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखी थी आज भाजपा सरकार उसको मूर्त रूप से पूरा करने के लिए सही दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर किसान मोर्चा उपाध्यक्ष राजेंद्र सरपंच, मंडल महामंत्री रामनिवास शर्मा, ओबीसी मोर्चा से आईटी प्रमुख सचिन जांगड़ा, मंडल मंत्री श्री शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा रमेश पांचाल, मनी पांचाल, रामड़ा सरपंच प्रदीप कश्यप, सचिन धीमान, गुरुमुख आदि मौजूद रहे।

**एडीसी का दौरा एडीसी ने अधिकारियों से बारदाने की उपलब्धता, नमी मापक यंत्र आदि की जानकारी ली**

**अनाज मंडी: शौचालय पर ताला, मृत मिला गोवंश, पानी में दुर्गंध**

हरिभूमि न्यूज ►► समालखा  
एडीसी डा.पंकज यादव ने रबी की फसलों की खरीद व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शनिवार को उपमंडल समालखा अनाज मंडी पहुंचे तथा किसानों और आदतियों से बातचीत की और फसल खरीद की व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने सरसों उपज की गुणवत्ता की जांच की और कहा कि किसान मंडियों में अपनी उपज को सुखाकर बिक्री के लिए लाएं। उन्होंने कहा कि अबकी बार बंपर पैदावार होने का अनुमान है। ऐसे में अड़चने न आने पाए इसके लिए अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। एडीसी पंकज यादव अधिकारियों के साथ अनाज मंडी

पुलिस व अर्धसैनिक बल की टुकड़ी ने संयुक्त रूप से शहर के रेलवे रोड से हल्के के विभिन्न गांवों झटटीपुर, करहंस, मच्छरौली, भापरा, समालखा, चुलकाना, भोड़वाल माजरी, पट्टीकल्याण, देहरा, महावटी, आटा, डिंकाडला, जौरासी, गढ़ी, मालपुर, बिहोली, बापौली, सनौली सहित अन्य गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। उपमंडल समालखा से डीएसपी नरेंद्र

पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश दिए। एडीसी ने खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से बारदाने की उपलब्धताए नमी मापक यंत्र के अलावा अन्य कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। इस बीच मंडी परिसरों में आदतियों से भी खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने दोहराया कि खरीद के दौरान किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाए इसके लिए आवश्यक इंतजाम समय रहते पूरे किए जाएं। एसडीएम अमित कुमार भी एडीसी

ने सलोन बाल रूप का नाम कृष्ण रखा तो गोपियों उस सलोन लेने को पल भर निहार लरना चाहती थी। हृदय लूट लेने वाली मुस्कुराहट देख का गोपियां शुद्ध बुद्ध खो बैठी। कथा समारोह में जन सेवा दल के प्रधान पांचवे दिन कहा कि भागवत वहीं करवाते हैं जिससे कन्हैया जी कहते हैं। ठाकुर जी ने कहा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छद्मि न भावा। भक्ति भाव से ही वृत्ति पवित्र होती है और प्रभु के दर्शन होते ही। जब मुनि गर्गाचार्य जी







इस सृष्टि की संपूर्ण शक्ति की स्रोत आदिशक्ति मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना का पर्व नवरात्र, आगामी मंगलवार से आरंभ हो रहे हैं। इस दौरान प्रकृति भी अपना पुराना आवरण त्याग कर नया स्वरूप धारण करती है। ऐसे संक्रांति काल में पवित्र मन से उपासना करने पर मां शक्तिस्वरूपा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।

## चैत्र नवरात्र शक्ति की कामना का उत्सव

**धा**र्मिक ही नहीं ज्योतिष की दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। यह अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने और सात्विक गुणों को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। नवरात्र में हम देवी के नौ रूपों की अर्चना करते हैं। असल में ये नौ रूप हमारी विभिन्न मनोदशाओं के परिष्कार, उनकी शुद्धि से जुड़े हुए हैं। तरह-तरह की तामसिक प्रवृत्तियां हम सब के इर्द-गिर्द विचरण करती रहती हैं। नवरात्र के दौरान किया जाने वाला तप, उपवास हमें इन नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर शुद्ध और सुजनशील बनाता है। इसलिए चैत्र नवरात्र को आध्यात्मिक साधना से शक्ति अर्जित करने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।

### संपूर्ण सृष्टि की स्रोत आदिशक्ति

यह संपूर्ण सृष्टि, शक्तिस्वरूपा में निहित सृजनात्मकता का प्रतिफल है। इस सृजनात्मकता का आरंभ आदिशक्ति से माना जाता है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि के सृजन के लिए आदिशक्ति के अंश स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की परिकल्पना की। नवरात्र पर्व स्त्री शक्ति की इसी सृजनात्मकता और उसके अनगिनत रूपों की आराधना का पर्व है। आदिशक्ति संसार की सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु हैं। इसलिए नवरात्र में देवी की उपासना से हमें मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह की शक्ति प्राप्त हो सकती है। हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक नारी अपने आप में दैवीयमान ज्योतिर्मयी सत्ता है। यानी आदिशक्ति का ही प्रतीक रूप। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए आदिशक्ति से शक्ति की कामना का ही पर्व है नवरात्र।

### उपवास से उपासना

नवरात्र के नौ दिन साधना और संयम के साथ आत्मजागरण करने का अवसर होता है। बिना संयम और चित्त पर नियंत्रण किए साधना नहीं की जा सकती। चित्त के हठीले संस्कार, लोभ, ईर्ष्या, जड़ता, भय जैसी नकारात्मक शक्तियां हमारे आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ी बाधा होती हैं। इनसे पार पाने के लिए नियमित साधना आवश्यक है। नवरात्र के दौरान किए जाने वाले उपवास से इस साधना पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। साधना हमारे भावनात्मक संतुलन को साधती है। आंतरिक शक्ति का विस्तार कर संकल्पों को साकार करने में मदद करती है। मानसिक विकारों को दूर करती है और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए सात्विक शक्तियों का बीजारोपण करती है।



हमारा आंतरिक व्यक्तित्व आत्मसंयम, आत्मबल, इच्छाशक्ति, विवेक और ज्ञान से परिभाषित होता है। साधना के द्वारा ज्ञान और विवेक अर्जित किया जा सकता है। इसके अलावा साधना आत्म से साक्षात्कार का सबसे बड़ा माध्यम होती है। आत्म से साक्षात्कार समस्त शक्तियों और ज्ञान के मूल से परिचित होता है। बिना आत्म से मिले हुए कोई भी साधना अपूर्ण ही रहती है।

### साधना का उद्देश्य

नवरात्र में उपवास और साधना का उद्देश्य स्व को परिमार्जित करना होता है। जिस तरह हमारा बाहरी व्यक्तित्व हमारे कपड़ों, गहनों और आचार-विचार से निर्धारित होता है, ठीक उसी तरह

हमारा आंतरिक व्यक्तित्व आत्मसंयम, आत्मबल, इच्छाशक्ति, विवेक और ज्ञान से परिभाषित होता है। साधना के द्वारा ज्ञान और विवेक अर्जित किया जा सकता है। इसके अलावा साधना आत्म से साक्षात्कार का सबसे बड़ा माध्यम होती है। आत्म से साक्षात्कार समस्त शक्तियों और ज्ञान के मूल से परिचित होता है। बिना आत्म से मिले हुए कोई भी साधना अपूर्ण ही रहती है।

### उपासना से होता है कल्याण

चैत्र मास में प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में व्याप्त होती है। प्रकृति का यह उल्लास पूरे वातावरण पर प्रभाव डालता है। मान्यता है कि इस दौरान आध्यात्मिक साधना करने वालों पर सृष्टि में पर्याप्त सकारात्मक ऊर्जा देवीय अनुकंपा के रूप में बरसती है। इस तरह प्रकृति से प्राप्त ऊर्जा का संयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा से होता है। साधक के मन-मस्तिष्क और आचार-विचार का कायाकल्प हो जाता है। यानी हर तरह से हमारा कल्याण हो जाता है। आत्मचेता मनुष्य सिर्फ अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाकर जीवन में सार्थकता लाते हैं। \*

### रिचयों में विद्यमान देवी अंश

शक्ति स्वरूपा देवी का अंश रिचयों में भी विद्यमान होता है। इसीलिए उनकी ऊर्जा निरंतर और अक्षुण्ण होती है। बात संस्कार की हो या समर्पण की, कर्तव्य की हो या अपाजत्व की इस सांसारिक यात्रा में रिचयों निरंतर स्तित रहती हैं, अपना बलिष्ठ किमती रहती हैं। उनमें मौजूद विभिन्न गुणों के आधार पर ही उन्हें लक्ष्मी, सरस्वती, काली और दुर्गा का अंश कहा जाता है। हम नवरात्र में दुर्गा जी की आराधना अवश्य करें लेकिन साथ ही शक्ति का अंश धारण करने वाली रिचयों को भी घर, बाहर और समाज में हर जगह आदर-सम्मान देना कर्मा भी मूल्य है।

स पृथ्वी पर महाद्वीप, हम इंसानों द्वारा अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए भौगोलिक सीमाओं का उपयोग करके बनाए गए विभाजन हैं। लेकिन अकसर प्रकृति का विभाजन बहुत सख्त नहीं होता और इसीलिए पृथ्वी पर दो महाद्वीपों में फैले देश मौजूद हैं। ऐसा ही एक देश है- अजरबैजान। यह देश पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया की सीमा पर स्थित है, इसलिए यह दोनों महाद्वीपों के बीच विभाजित है। एक तरफ कैस्पियन सागर और दूसरी तरफ काकेशस पर्वत के बीच बसा यह छोटा सा देश हमारे अपने देश के पश्चिम बंगाल राज्य से भी छोटा है।

इस देश की राजधानी बाकु, समुद्र तल से नीचे विश्व की सबसे निचली राजधानी है। बाकु शहर समुद्र तल से 92 मीटर नीचे है। बाकु शहर को वहां बहने वाली तेज हवाओं के कारण 'हवाओं का शहर' भी कहा जाता है। इस शहर में स्थित 'फ्लेम टावर' अपने अनूठे डिजाइन के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ओल्ड सिटी सेंटर में एक पहाड़ी पर स्थित, ये टावर कैस्पियन सागर का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

## दो महाद्वीपों में फैला देश अजरबैजान



देश का इतिहास: ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में एट्रोपेटस इस भूमि का शासक हुआ करता था। एट्रोपेटस शब्द का अर्थ है 'पवित्र अग्नि की भूमि'। इस देश में स्थित यानरदाग एक ऐसा स्थान है, जहां प्राकृतिक गैस से प्रज्वलित आग देखी जा सकती है और लगातार जलती रहती है, इसलिए यह नाम अग्नि की भूमि से आया होगा। माना जाता है कि इसी एट्रोपेटस से इस देश का नाम अजरबैजान पड़ा।

अनोखे हैं तीन टावरस: यहां स्थित तीन फ्लेम टावरों में सबसे ऊंचा दक्षिण में 39 मंजिला टावर है। इस आवासीय टावर में 130 लकजरी अपार्टमेंट हैं। उत्तरी कोने में 36 मंजिला टावर में 318 कमरों वाला फेयरमोर्ट होटल है। पश्चिमी तरफ, कॉर्पोरेट ऑफिस वाला टावर है। इन टावरों का निर्माण 2007 में शुरू हुआ और 2012 में इनका निर्माण पूरा हुआ था। इन टावरों का आकार आग की लपटों जैसा है, लेकिन उनकी सतह एलईडी स्क्रीन से बनी है और ये स्क्रीन आग की लपटों का दृश्य प्रदर्शित करती हैं, जिन्हें शहर में कहीं से भी देखा जा सकता है। \*

## लाइफस्टाइल / किरण भास्कर

डॉन लाइफस्टाइल में आपको ड्रेस और दूसरी एक्सेसरीज की तरह आपका परफ्यूम भी आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। कई लोग अपने को रिफ्रेश करने के लिए बार-बार परफ्यूम का छिड़काव करते हैं, जबकि कई लोग ऐसे परफ्यूम लगाते हैं, जिसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है। दरअसल, खुशबू में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल का महत्व ज्यादा होता है। यही वजह है कि वे परफ्यूम ज्यादा महंगे होते हैं, जिनमें यूज किया गया तेल महंगा होता है।

**परफ्यूम का असर:** विभिन्न इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि वास्तव में हमारे परफ्यूम की खुशबू या सुगंध हमारे मूड को तय करती है। यही नहीं फ्रेगरेंस का रिश्ता हमारे तनाव और भावनाओं से भी सीधे तौर पर होता है। कई अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अलग-अलग तरह की सुगंध अलग-अलग तरह का प्रभाव डालती है। इसलिए हर किसी को यह जानना चाहिए कि उसके मूड का रिमोट आखिर कौन-सा परफ्यूम है और पूरी सजगता के साथ ऐसे परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। अध्ययनों से यह भी साफ हुआ है कि फ्रेगरेंस का रिश्ता हमारी बेहतर नींद से भी है। इसलिए अपने लिए ऐसे परफ्यूम को चुनें, जो

## जब लगाएं परफ्यूम इन बातों का रखें ध्यान



आपको बेहतर नींद मुहैया कराए। लबोलुआब यह कि अपने परफ्यूम को अपने मूड का रिमोट बनाइए।

**जब लगाएं परफ्यूम:** अपने लिए परफ्यूम सेलेक्ट और यूज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें।

- ▶ महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर नियमित परफ्यूम देर तक खुशबू देते हैं। इनमें आमतौर पर 30 प्रतिशत से ज्यादा एंसेंशियल ऑयल होता है और ये सुबह से लेकर शाम तक करीब 7-8 घंटे अपनी भीनी-भीनी खुशबू

बिखरते हैं और आप महकते रहते हैं।

- ▶ 15 से 22 प्रतिशत एंसेंशियल ऑयल वाले परफ्यूम 3 से 5 घंटे तक खुशबू देते हैं। ऐसे परफ्यूम कलाई और गर्दन पर लगाने चाहिए।
- ▶ 8 से 15 प्रतिशत एंसेंशियल ऑयल वाले परफ्यूम स्प्रे में आते हैं और इन्हें भी अकसर आम लोग इस्तेमाल करते हैं।
- ▶ 4 प्रतिशत एंसेंशियल ऑयल वाले परफ्यूम को शरीर के हर हिस्से पर लगाया जा सकता है। यह शैवला बोटल में आता है और दो घंटे तक इसकी महक बनी रहती है।
- ▶ अगर लंबे समय तक परफ्यूम को खुशबू चाहते हैं तो इसे लगाने के लिए उसकी लेयरिंग टोन को कंडीसर करें और उसी महक को अलग-अलग प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल करें। शावर या बाथ जैल के अलावा इसे बाँधी में लोशन या स्प्रे के साथ रहाने के बाद बाथ स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सेंट को परफ्यूम के रूप में इस्तेमाल करें तो इसे खींचे से ऊपर की ओर लगाएं। इससे पूरे शरीर में महक बनी रहती है।
- ▶ परफ्यूम को बाँधी प्लांट जैसे कोहिनियों, बैक, घुटनों, कलाई, गर्दन और वक्ष स्थल में लगाएं, जहाँ इसकी महक लंबे समय तक रहती है। \*



छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आई प्राची देसाई का सिक्का ओटीटी पर काफी जम चुका है। इन दिनों वह ओटीटी फिल्म 'साइलेंस : द नाइट आउल बार शूटआउट' को लेकर चर्चा में हैं। इसमें प्राची का क्या किरदार है? क्या प्राची ने फिल्मों से दूरी बना ली है? करियर से जुड़े अहम सवालों पर प्राची देसाई से खुली बातचीत।

## ओटीटी पर मुझे फिल्मों के मुकाबले ज्यादा चैलेंजिंग किरदार मिल रहे हैं : प्राची देसाई

### खास मुलाकात / पूजा सागंत

**ओ**टीटी की लोकप्रियता को देखते हुए बॉलीवुड और टीवी से जुड़े कई नामी सितारों ने इसकी ओर रुख किया है। इनमें एक और एक्ट्रेस का नाम जुड़ गया है-प्राची देसाई। उन्होंने ओटीटी पर डेब्यू किया था फिल्म 'साइलेंस' से। प्राची ने तेलुगू भाषा के सुपरस्टार नागा चैतन्य के साथ भी एक वेब शो 'धूता' किया है। इन दिनों वह मनोज बाजपेयी के साथ 'साइलेंस: द नाइट आउल बार शूटआउट' को लेकर चर्चा में हैं। यह वेब सीरीज 16 अप्रैल को जी-5 पर रिलीज होगी। पेश है प्राची देसाई से हुई बातचीत के प्रमुख अंश -

**फिल्म के बड़े पर्दे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करके क्या फर्क पति है?**

मेरी नजर में ओटीटी के लिए शूटिंग करना ज्यादा आसान है। सात-आठ एपिसोड्स की कहानी वाले वेब शो की शूटिंग ज्यादा से ज्यादा एक से डेढ़ महीने में खत्म हो जाती



'साइलेंस' के एक सीन में मनोज बाजपेयी के साथ प्राची देसाई हैं। फिल्मों में बड़ा ताम-झाम होता है। बल्क में डेट्स ली जाती हैं। कभी फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ जाता है। मेहनत तो फिल्म और ओटीटी दोनों जगहों पर है ही। वैसे ओटीटी पर मुझे फिल्मों के मुकाबले ज्यादा चैलेंजिंग किरदार मिल रहे हैं।

**आपने कुछ वर्ष पहले 'साइलेंस' सीजन-1 भी की थी। इसी फिल्म का दूसरा सीजन करने की क्या खास**

वजह रहीं, यानी आपने इसे क्यों एक्सेप्ट किया ?

2020 के कोरोना लॉक डाउन के दौर में मैंने फिल्म 'साइलेंस' सीजन-1 की थी। यह एक सर्वसम्पन्न-श्रिलर जॉनर की बहुत दिलचस्प फिल्म है। इस जॉनर की फिल्में आजकल खूब पसंद की जा रही हैं। 'साइलेंस' सीजन 1 की शूटिंग के समय बहुत सारे प्रोटोकॉल निभाने थे। शूटिंग करने की भी इजाजत आसानी से नहीं मिलती थी। इस मुश्किल समय में शूटिंग करना बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन सभी कलाकारों ने मिलजुल कर काम किया। उस अनुभव को, उन दिनों को मैं कभी नहीं भूला सकती। हम बस इंतजार ही कर रहे थे कि कब 'साइलेंस' का दूसरा सीजन बने। जब दूसरे सीजन का ऑफर मिला, इसे एक्सेप्ट करना तो बनता ही था।

**क्या इसकी कहानी-किरदार का आकर्षण नहीं था आपके लिए ?**

ऑफकोर्स था। कलाकार के लिए कहानी और किरदार का आकर्षण ना हो तो वह कलाकार कैसा? फिल्म में अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ काम करना एक बहुत बड़ा आकर्षण किसी भी एक्टर के लिए हो सकता है।

**फिल्म में अपने किरदार के बारे में बताएं ?**

इस फिल्म में मेरा किरदार इन्वेस्टिगेटिव पुलिस ऑफिसर संजना भाटिया का है। मेरा किरदार अंडर कवर्ड है। मस्ती-मजाक में भी पुलिस ऑफिसर संजना भाटिया अपने कर्तव्य को उचित अंजाम देती है।

**अपने किरदार के लिए आपने क्या कोई खास तैयारी की थी ? इसके लिए निर्देशक की कोई विशेष हिदायत थी ?**

अमूमन पुलिस अफसर जब किसी हीरो को दिखाया जाता है तब उसमें अकसर कई एक्शन सीन होते हैं, लेकिन निर्देशक अबन भरुचा देवहंस, जो एक सक्षम महिला निर्देशक हैं, उन्होंने मेरे किरदार को थोड़ा लाइट हाट ड बनाया। सभी पुरुष पुलिस वालों में मैं एक महिला पुलिस ऑफिसर हूँ, जो कहानी में हल्के-फुल्के संवाद बोलती है, सभी को हंसाती रहती है। संजना के कारण तनाव भरे माहौल में हल्का-फुल्का माहौल

बनता है। हालांकि इसमें छोटे-मोटे एक्शन सीन हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यह मर्डर मिस्ट्री है। कहानी में सभी कड़ियों को जोड़े रखने में संजना कागूर मालूम होती है। इसलिए एक्शन, स्टंट्स करने वाली यह पुलिस अफसर नहीं है। यह संजना दर्शकों को याद रहेगी।

**आप अचानक फिल्मों से गायब हो गईं। अब चार वर्षों बाद ओटीटी पर नजर आ रही हैं ? आप फिल्मों से दूर क्यों हुईं ?**

मैं फिल्मों में नजर नहीं आई, जिसके कई कारण थे। कोरोना काल के लॉक डाउन में मेरी क्या शायद ही किसी अन्य एक्टर की फिल्म रिलीज हुई हो। मैंने जो फिल्में साइन की थीं, उनमें कोई फिल्म शुरू नहीं हो पाई। मैं अपने पेशान के लिए फिल्में करती हूँ, यह जरूरी नहीं मेरी हर वर्ष दो-चार फिल्में रिलीज हों। एक वर्ष में बस एक फिल्म रिलीज हो, जिसे करने में मुझे खुशी हो, इतना काफी है मेरे लिए। मैं बहुत चूची हूँ, जो पसंद आए सिर्फ उसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। ओटीटी पर जो भी प्रोजेक्ट किए, मेरे परफॉर्मेंस की प्रशंसा हुई। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े पर्दे से दूर हो गई हूँ।

**'साइलेंस' सीजन-2 के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डूधर और क्या किया है ?**

अमेज़ॉन प्राइम पर 'धूता' रिलीज हुए अभी तीन महीने हुए हैं। इस वेब शो का रिजल्ट काफी उत्साहवर्धक रहा। आठ कड़ियों वाले इस शो का जो फीडबैक मिला, देखकर खुशी हुई। लगा मेरा यह निर्णय सही था कि मैं ओटीटी के नए प्लेटफॉर्म पर खुद को आजमा लूँ। विक्रम कुमार इसके निर्देशक हैं, मेरे को-स्टार नागा चैतन्य हैं। मुझे निर्देशक विक्रम कुमार और नागा चैतन्य ने काफी कर्त्तव्य किया कि मैं यह शो कर खुद को आजमाऊँ। अगर मेरे लिए यह रिस्क है तो रिस्क लेना सही है। बिना रिस्क, बिना चैलेंज एक एक्टर के रूप में मैं कैसे ग्रो करूँगी ? उनके इस तरह समझाने के बाद मैं वेब शो 'धूता' के लिए मान गई। इस वेब शो का यह पहला सीजन है। दूसरे सीजन की तैयारी चल रही है। \*